

## इस अंक में

### सांप्रदायिक घटनाएं

3-12

#### सांप्रदायिक हिंसा और तनाव

- उत्तरप्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाएं  
गोंडा, मऊ, बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, रायबरेली, अमेठी, बलरामपुर, श्रावस्ती, फैजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, बलिया, प्रतापगढ़, कौशांबी, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर  
मैनपुरी प्रतापगढ़-अमेठी संभल, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, शामली
- बिहार में हुई सांप्रदायिक घटनाएं  
मोतिहारी, बेतिया, भोजपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा, गोपालगंज, औरंगाबाद, गया
- पश्चिम बंगाल में तनाव और हिंसा  
उत्तरी 24 परगना, मालदा, हुगली, पश्चिमी मेदिनीपुर, बर्धमान और मुर्शिदाबाद

- मध्यप्रदेश में सांप्रदायिक घटनाएं धार, झाबुआ, बड़वानी, देवास
- कर्नाटक में सांप्रदायिक घटनाएं बेलागावी, गुलबर्ग
- झारखंड में सांप्रदायिक घटनाएं डाल्टनगंज, दुमका, चतरा, गढ़वा
- दिल्ली में सामान्य विवाद को लेकर हुई हिंसा
- वड़ोदरा में हिंसा
- ठाणे में सांप्रदायिक घटनाएं
- बीकानेर में सांप्रदायिक हिंसा

### सांप्रदायिक रणनीति

13-18

- हिंदू पलायन की नई जगहें तलाशेगा आरएसएस
- विहिप देश भर में लगाएगा शिविर
- हिंदू महासभा लगाएगी नारायण आष्टे की मूर्ति
- राजस्थान में गौरक्षक संगठनों का आदिवासियों पर हमला
- डोडा में आरएसएस के पथ संचालन से तनाव
- गुजरात में गरबा कार्यक्रम में मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक अभियान
- कॉलेज में बुर्के पहनने के खिलाफ प्रदर्शन
- विहिप के नेता ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश
- गुजरात में गौमूत्र को बताया महिलाओं की सुंदरता के लिए जरूरी
- मुरादाबाद में आरएसएस की शस्त्र-पूजा के दौरान फायरिंग
- म.प्र. में आरएसएस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद पुलिसकर्मी निलंबित
- हरियाणा में आरएसएस का सदस्यता अभियान

- जीसस और पैगंबर के सहारे गुजरात में गौरक्षा कार्यक्रम
- पंजाब में आरएसएस की गतिविधियों से अकाल तख्त नाराज
- उदयपुर में हिंदू महासभा के कार्यक्रम का विरोध
- वृंदावन में नास्तिक सम्मेलन पर हमला
- पुणे में हिंदू पलायन का मुद्दा
- कोझिकोड में हिंदू एक्य वेदी की रणनीति
- बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल के बयान को लेकर विवाद
- उडुपी में दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यक्रम से विवाद
- गौरक्षकों के निशाने पर मेवात
- दीवाली के कार्यक्रम में गैरहिंदुओं के शामिल होने का विरोध

#### अभिव्यक्ति की आजादी

17

- इप्टा कार्यक्रम के दौरान तोड़-फोड़
- रामलीला में मुस्लिमों के शामिल होने का विरोध

#### शिक्षा का भगवाकरण

18

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आरएसएस के सुझाव
- आरएसएस से जुड़े संस्थान को मुंबई यूनीवर्सिटी से संबद्ध

न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया	18-23
<ul style="list-style-type: none"> <li>• बिजनौर दंगा में भाजपा नेता का आत्मसमर्पण</li> <li>• हिंदू मुन्नानी कार्यकर्ता हत्या मामले में पांच लोग गिरफ्तार</li> <li>• कमलेश तिवारी पर रासुका हटा</li> <li>• मद्रास हाइकोर्ट ने आरएसएस को मार्च की अनुमति दी</li> <li>• कोझकोड में सलाफी प्रचारक पर यूएपीए के तहत मामला</li> <li>• गुजरात हाइकोर्ट का ताजिया जुलूस का रास्ता बहाल करने से इंकार</li> <li>• फगवाड़ा हिंसा जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई</li> <li>• विवादित सोशल पोस्ट पर प्रवासी भारतीय गिरफ्तार</li> <li>• हिंदू मक्कल काची का नेता शस्त्र पूजा के बाद गिरफ्तार</li> <li>• वरुण कश्यप जमानत पर रिहा, पुलिस पर आरोप</li> <li>• सोशल पोस्ट के विवाद में मेरठ के स्कूल प्रिंसिपल पर एफआईआर</li> <li>• बिहार के गोपालगंज विवाद में पुलिस केस</li> <li>• केरल में हेट स्पीच का मामला दर्ज</li> <li>• मुजफ्फरपुर में दुर्गा विसर्जन के विवाद में मामला दर्ज</li> <li>• गौरक्षा विवादों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार</li> <li>• झारखंड सरकार ने दिया ईसाई मिशनरियों की जांच का आदेश</li> <li>• मक्का ब्लास्ट केस में गवाहों ने बदला बयान</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• बिलकिस बानो केस: सीबीआई ने दोषियों को मौत की सजा देने की अपील की</li> <li>• इंडियन मुस्लिम ऑब्जर्वर के संपादक को धमकी पर पुलिस शिकायत</li> <li>• राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कैराना विवाद को किया खारिज</li> <li>• गौमांस मामले में पुलिस की पिटाई से आरोपी की मौत</li> <li>• सोशल पोस्ट के विवाद में पोकरण के डॉक्टर पर एफआईआर</li> <li>• हेट स्पीच मामले में हिंदू एक्य वेदी की नेता गिरफ्तार</li> <li>• इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर आपराधिक मामला दर्ज</li> <li>• हेट स्पीच मामले में आप नेताओं पर कार्रवाई पर रोक</li> <li>• बाबू बजरंगी को एक हफ्ते की जमानत</li> <li>• उज्जैन महाकुंभ पर विवादित पोस्ट की पुलिस शिकायत</li> </ul>
<p><b>सांप्रदायिकता से जुड़े आंकड़े</b></p>	<p><b>23</b></p>
<p>उत्तरप्रदेश में सांप्रदायिक घटनाओं में बढ़त</p>	

**सांप्रदायिक घटनाएं**

**सांप्रदायिक हिंसा एवं तनाव**

घटनाएं	सम्मिलित संगठन/समूह	दिनांक और घटना स्थल
<p><b>उत्तरप्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाएं</b> <b>मूर्ति विसर्जन से जुड़ी घटनाएं</b></p>		
<p><b>गोंडा</b> गोंडा जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव के बाद तनाव हुआ और दंगा भड़कने की अफवाह फैली। इस मामले को लेकर कैसरगंज और गोंडा के भाजपा सांसदों ने धरना दिया और हिंदूवादी संगठनों ने बंद आयोजित किया। इसके ठीक अगले दिन भाजपा नेता को धार्मिक उन्माद भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और मुस्लिम समुदाय ने हिंसा की आशंका को देखते हुए मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला।</p>	अराजक तत्व, भाजपा, हिंदूवादी संगठन	12/10/2016 गोंडा
<p><b>मऊ</b> मऊ में दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन और मुहर्रम के दौरान तनाव की स्थिति बनी रही।</p>	स्थानीय समुदाय	12/10/2016 मऊ
<p><b>बहराइच</b> बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र में दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के दौरान हुए विवाद में हिंसा हुई। उपद्रवियों ने करीब 34 घरों में आग लगा दी। इस हिंसा में एक बच्ची की मौत हो गई। जिले के नानापारा में मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर मांस का टुकड़ा फेंकने के आरोपों के बाद तनाव हुआ। इस मामले में दोनों समुदाय के कुछ लोग ने मिलकर माहौल शांत कराया। मांस फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।</p>	स्थानीय समुदाय	13/10/2016 फखरपुर, नानापारा बहराइच
<p><b>महाराजगंज</b> महाराजगंज के नाथनगर इलाके में मूर्तियों के विसर्जन के दौरान मारपीट हुई। यह विवाद की वजह जुलूस के रास्ते को लेकर हुआ। विरोध में मूर्तियों को रखकर रास्ता जाम कर दिया। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद मूर्तियों का विसर्जन हुआ। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।</p>	स्थानीय समुदाय	12/10/2016 नाथनगर, महाराजगंज
<p><b>देवरिया</b> देवरिया के लार कस्बे में मूर्ति विसर्जन के दौरान मस्जिदों के पास लाउडस्पीकर बजाने से विवाद हुआ। हिंसा में करीब 12 लोग घायल हो गए। हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने 31 लोगों को गिरफ्तार किया। घटना को लेकर धरना दे रहे सलेमपुर भाजपा सांसद सहित 12 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया।</p>	स्थानीय समुदाय, भाजपा	13/10/2016 लार, देवरिया
<p><b>कुशीनगर</b> कुशीनगर के कुबेर स्थान थाना के इलाके में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव से विवाद हुआ। इस दौरान हुई हिंसा में कई घरों में आग लगा दिया गया।</p>	स्थानीय समुदाय	13/10/2016 कुबेर स्थान,

## रायबरेली, अमेठी

रायबरेली के डीह क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। अमेठी के शिवरतनगंज में अराजक तत्वों द्वारा मूर्तियों को तोड़े जाने से हिंसा हुई। हिंसा में करीब 12 लोग घायल हो गए।

## बलरामपुर

बलरामपुर जिले के उत्तरौला क्षेत्र के महदेइया बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए पथराव से तनाव हुआ। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर इलाके में आपत्तिजनक नारा लगाने के आरोपों में तनाव हुआ। इस मामले में हिंदु युवावाहिनी और स्थानीय नगर पंचायत अध्यक्ष की शिकायत पर 400 अज्ञात लोगों पर और 217 नामजद केस दर्ज किया गया।

## श्रावस्ती

श्रावस्ती में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। इस दौरान हुई हिंसा में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने 62 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजपा सांसद ददहन मिश्र ने भिनगा-बहराइच फोरलेन पर धरना दिया और पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया।

## फैजाबाद

फैजाबाद के बेनीगंज इलाके में राम बारात के दौरान भड़काऊ गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद को देखते हुए अर्ध सैनिकबलों ने प्लैग मार्च किया। इस मामले में 500 लोगों पर केस दर्ज किया गया।

<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/uttar-pradesh-tension-in-gonda-as-religious-procession-pelted-with-stones/>  
<http://www.hindustantimes.com/lucknow/clashes-across-up-during-muharram-durga-idol-immersion/story-rYpqXr4VfmHoNtU6Zu0T8K.html>  
<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/communal-clash-in-bahraich-house-set-on-fire--4-year-old-girl-dies-up-crime-hindu-muslim-/3081662>  
<http://www.jagran.com/uttar-pradesh/maharajganj-14867300.html>  
<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/salempur-on-dharna-to-see-nod-to-visit-clash-site-bjp-mp-briefly-detained-3086856/>  
<http://www.patrika.com/news/kushinagar/violence-in-kushinagar-during-idol-immersion-one-person-death-/1433806>  
<https://www.youtube.com/watch?v=zSq93jk0p8A>  
<http://www.patrika.com/news/balarampur/durga-puja--2016stone-thrown-on-statue-immersion-in-mahdeiya-bazar-utraula-/1419851>  
<http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/gonda/case-against--217named-and--400unidentified>  
<http://hindi.eenaduindia.com/UttarPradesh/OthersInUttarPradesh//15080134/10/2016Communal-tension-in-Sravasti.vpf>  
<http://hindi.cobrapost.com/state/communal-tension-in-faizabad-security-forces-hold-flag-march/28058>  
<http://www.hindustantimes.com/lucknow/faizabad-cops-on-high-alert-after-communal-tensions-flare-during-durga-puja/story-AGuxDxr4BxKgieZFXk6IeK.html>

कुशीनगर

स्थानीय  
समुदाय

13/10/2016  
डीह, रायबरेली  
शिवरतन गंज,  
अमेठी

स्थानीय  
समुदाय, हिंदू  
युवावाहिनी

13/10/2016  
महदेइया,  
12/10/2016  
तुलसीपुर,  
बलरामपुर

स्थानीय  
समुदाय,  
भाजपा

13/10/2016  
श्रावस्ती

हिंदुत्ववादी  
संगठन

5/10/2016  
फैजाबाद

<p><a href="http://indiatoday.intoday.in/story/-500booked-for-inflammatory-songs-in-faizabad/.789238/1.html">http://indiatoday.intoday.in/story/-500booked-for-inflammatory-songs-in-faizabad/.789238/1.html</a> Date Accessed: 31/10/2016</p>		
<p><b>मुहर्रम के दौरान हुई घटनाएं</b> <b>मुरादाबाद</b></p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>13/10/2016 सतारन, मुरादाबाद</p>
<p>मुरादाबाद के सतारन गांव में मुहर्रम पर हुए विवाद में सांप्रदायिक हिंसा हुई। इस दौरान आठ लोग घायल हुए। इस घटना में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ।</p>		
<p><b>बहराइच</b> बहराइच के नवाबगंज इलाके में बुधवार को मोहर्रम के जुलूस के रास्ते को लेकर पथराव भी हुआ। इसके बाद इसी इलाके में एक दीवार तोड़ने के मुद्दे पर दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए। पथराव और मारपीट में कई लोग घायल हो गए।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>12/10/2016 नवाबगंज बहराइच</p>
<p><b>बरेली</b> बरेली के नवाबगंज में गुरुवार को मुहर्रम के मौके पर ताजिया जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद हुआ। पथराव में करीब 25 लोग घायल हो गए।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>13/10/2016 नवाबगंज, बरेली</p>
<p><b>सीतापुर</b> सीतापुर के हरगांव के पास मुहर्रम के जुलूस के रास्ते को लेकर हुए विवाद में पथराव हुआ। इसके अलावा रेउसा में ताजिया विवाद में अराजक तत्वों ने तीन घरों में आग लगा दिया।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>13/10/2016 हरगांव, सीतापुर</p>
<p><b>बलरामपुर</b> बलरामपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। जिले के तुलसीपुर में जुलूस के दौरान भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाया गया।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>13/10/2016 बलरामपुर, तुलसीपुर बलरामपुर</p>
<p><b>बलिया</b> बलिया के घोड़हरा गांव में मुहर्रम के जुलूस के रास्ते में लगी दुर्गा पूजा की सजावट को लेकर विवाद हुआ। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष माने। इस विवाद में 15 नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>13/10/2016 घोड़हरा, बलिया</p>
<p><b>प्रतापगढ़</b> प्रतापगढ़ के कुंडा में ताजिया ले जाने के रास्तों का विवाद के बाद तनाव हुआ है।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>13/10/2016 कुंडा, प्रतापगढ़</p>
<p><b>कौशांबी</b> कौशांबी में रास्ते के विवाद को लेकर मुहर्रम और दुर्गा पूजा के जुलूस में हिंसा हुई।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>11/10/2016 12/10/2016 कौशांबी</p>
<p><b>नोट:</b> उत्तरप्रदेश के कई इलाकों में सांप्रदायिक विवाद हुए हैं। लेकिन खबरों में उनकी कवरेज ठीक से नहीं की गयी है। रिहाई मंच की एक सूची और अन्य स्रोतों के अनुसार बलरामपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के कुसमहर गांव में, फैजाबाद नगर कोतवाली क्षेत्र में 12 अक्टूबर को</p>		

बहादुरगंज में, पटरंगा थाना क्षेत्र के खंड पिपरा गांव में, सुल्तानपुर के चांदा में, पीलीभीत, चित्रकूट, इटावा, सहारनपुर में भी मूर्ति विसर्जन और मुहर्रम के दौरान सांप्रदायिक घटनाएं हुईं।

<http://www.amarujala.com/india-news/communal-violence-in-the-village-of-moradabad>

<http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/other-news/communal-clash-in-bahraich/articleshow/54871288.cms>

<http://www.hindustantimes.com/lucknow/clashes-across-up-during-muharram-durga-idol-immersion/story-rYpqXr4VfmHoNtU6Zu0T8K.html>

<http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/ballia/crime/-15naamjad--300par-case>

[http://www.business-standard.com/article/politics/tension-in-kaushambi-during-durga-idol-tazia-processions-116101300319\\_1.html](http://www.business-standard.com/article/politics/tension-in-kaushambi-during-durga-idol-tazia-processions-116101300319_1.html)

<http://www.hastakshep.com/hindi/2016/10/14/communal-violence-in-dussehra-muharram>

Date Accessed: 31/11/2016

### आगरा में बजरंग दल से झड़प के बाद तनाव

आगरा के नामनेर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और एक समुदाय के लोगों के बीच झड़प में कई लोग घायल हुए और सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गयी। प्रशासनिक हस्तक्षेप से विवाद शांत हो गया।

<http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/crime/communal-tension-in-namner>

Date Accessed: 28/10/2016

### अलीगढ़ और बिजनौर में दीपावली पर तनाव

अलीगढ़ में दीपावली के दिन दो समुदायों में पथराव हुआ। दूसरे समुदाय के लोगों पर पटाखा छोड़ने के विवाद में हिंसा हुई। इस दौरान हुई फायरिंग में दो लोगों की मौत हुई।

बिजनौर के नहतौर इलाके के गांव करीमपुर मुबारक में हिंदू लड़कियों का दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा फोटो खींचने पर विवाद हुआ और दोनों पक्षों ने पथराव किया।

<http://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-communal-tension-in-aligarh-and-bijnor-14956099.html>

Date Accessed: 31/10/2016

### मेरठ में भाजपा नेता की पिटाई के आरोप के बाद तनाव

मेरठ में भाजपा सांसद संजीव बालियान के सरधना प्रतिनिधि की पिटाई के बाद भाजपा ने विरोध किया। दूसरे समुदाय के आरोपी युवकों को आधार बनाकर संगीत सोम के नेतृत्व में धरने के दौरान इलाके में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी। दूसरे पक्ष ने कहा है कि वह परिवार की बीमार युवती को दिखाने के लिए जा रहे थे और रास्ते में प्रतिनिधि की गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ।

<http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/meerut/bjp-workers-commotion-police-cordon/articleshow/54700895.cms>

Date Accessed: 6/10/2016

### आगरा में धर्म स्थल को लेकर विवाद

शाहगंज नगला बासी में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर दो समुदायों में विवाद हुआ। बताया गया है कि मस्जिद के नए बन रहे प्रवेश द्वार, खिड़कियां खोलने को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध किया। आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने निर्माण को बाधित किया और तोड़-

स्थानीय  
समुदाय,  
बजरंग दल

28/10/2016  
नामनेर  
आगरा

स्थानीय  
समुदाय

30/10/2016  
अलीगढ़,  
नहतौर  
(बिजनौर)

भाजपा

5/10/2016  
सरधना  
(मेरठ)

स्थानीय  
समुदाय

17/10/2016  
शाहगंज नगला  
बासी  
(आगरा)

फोड़ की।

<http://www.jagran.com/uttar-pradesh/agra-city-.14883796html>

Date Accessed: 17/10/2016

### मैनपुरी में धार्मिक आयोजन पर रोक

मैनपुरी में प्रशासन ने भागवत कथा के आयोजन पर रोक लगायी। खबर में स्पष्ट नहीं है लेकिन प्रशासन ने कार्यक्रम की वीडियोग्राफी को आधार बनाकर आयोजकों को नोटिस जारी किया था लेकिन प्रशासनिक रोक के बाद भी कार्यक्रम हुआ। इसके पहले मैनपुरी में कच्ची और तकरीर का कार्यक्रम भी सांप्रदायिक तनाव की आशंका के चलते निरस्त किया गया था।

<http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/mainpuri/bhagwat-katha-organizers-thamaa-notice>

Date Accessed: 4/10/2016

### मेरठ के दो गांवों में सांप्रदायिक विवाद

मेरठ के दो गांवों जड़ौद और सिलौर में सांप्रदायिक विवाद हुआ। एक समुदाय के युवक द्वारा शोर मचाने का सामान्य विवाद सांप्रदायिक विवाद में बदल गया। इलाके में इससे पहले एक महिला के गायब होने को लेकर भी सांप्रदायिक टकराव के हालात बन गए थे।

<http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/meerut/crime/jaroda-me-sampradaaik>

Date Accessed: 12/10/2016

### अमेठी में सांप्रदायिक हिंसा

प्रतापगढ़ और अमेठी जिले की सीमा पर दो समुदायों के बीच हुए सांप्रदायिक विवाद में 93 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा इस हिंसा में तीन मुख्य आरोपियों पर नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है।

<http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/pratapgarh/crime/police-file--93person-case>

Date Accessed: 20/10/2016

### संभल में तनाव के प्रयास

मिर्जापुर ककरौआ गांव के एक मंदिर की दीवार गिरने के बाद तनाव हुआ। एक पक्ष का आरोप था कि कुछ लोगों ने मंदिर की दीवार गिराई है। पुलिस ने जांच में आरोपों को नकारते हुए कहा है कि कुछ लोग इसके जरे सांप्रदायिक स्थिति बिगाड़ने चाहते हैं।

<http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/sambhal/crime/chamunda-mandir-ki-diwar-girne-se-tanav>

Date Accessed: 25/10/2016

### अलीगढ़ में जमीन के विवाद को लेकर तनाव

अलीगढ़ के जलाली इलाके में कब्रिस्तान की जमीन पर रावण जलाने से इलाके में तनाव फैल गया। प्रशासनिक जांच में पाया गया कि कब्रिस्तान की बाउंड्री अभिलेखों में दर्ज जमीन से बाहर बना है। पुलिस की मौजूदगी में माहौल को शांत कराया गया और रावण दहन हुआ।

<http://www.jagran.com/uttar-pradesh/aligarh-city-.14811016html>

Date Accessed: 4/10/2016

### बुलंदशहर में तनाव और हिंसा

बुलंदशहर के गांव देवली में मंदिर के पुजारी साफ सफाई कर रहे थे। पुजारी ने आरोप लगाया था कि दूसरे संप्रदाय के लोगों ने इस दौरान गंदा पानी डाला। इस बात को लेकर वाद-विवाद

स्थानीय  
समुदाय

3/10/2016  
मैनपुरी

स्थानीय  
समुदाय

11/10/2016  
जड़ौद और  
सिलौर  
(मेरठ)

स्थानीय  
समुदाय

18/10/2016  
प्रतापगढ़-अमेठी

अराजक तत्व

24/10/2016  
मिर्जापुर  
ककरौआ गांव  
(संभल)

स्थानीय  
समुदाय

4/10/2016  
जलाली  
(अलीगढ़)

स्थानीय  
समुदाय

1/10/2016  
देवली  
(बुलंदशहर)

<p>हुआ, जिसने बाद में पथराव का रूप ले लिया। जिसमें पुजारी और कई लोग घायल हो गए।  <a href="http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/bulandshahr/dirty-water-poured-into-the-temple-tensions/articleshow/..54631907cms">http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/bulandshahr/dirty-water-poured-into-the-temple-tensions/articleshow/..54631907cms</a>                  Date Accessed: 2/10/2016</p> <p><b>गौतमबुद्ध नगर में तनाव</b></p> <p>उत्तर प्रदेश के दादरी के बिसाहड़ा गांव में हुई मोहम्मद अखलाक की हत्या मामले के एक अभियुक्त रवि की जेल में मौत के बाद शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विहिप नेता प्राची पहुंची। इस आयोजन में कई हिंदुत्ववादी संगठन शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में मांग किया गया कि अखलाक की हत्या के सभी 17 आरोपियों को जेल से रिहा किया जाए।  <a href="http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/muslim-families-leave-bishahra-amid-tension/article9194820.ece">http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/muslim-families-leave-bishahra-amid-tension/article9194820.ece</a>                  Date Accessed: 7/10/2016</p> <p><b>शामली में तनाव</b></p> <p>शामली के गांव बाबरी में हिंदुत्ववादी संगठनों ने एक गाय के गायब होने का मुद्दा उठाया, जिसने तनाव की स्थिति बनी। कई गौ रक्षक संगठनों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया। कथित तौर पर गायब हुए जानवर का केस पुलिस ने दर्ज किया। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद माहौल शांत हो गया।  <a href="http://www.thehindu.com/news/national/other-states/shamli-village-tense-over-missing-cow/article9202561.ece">http://www.thehindu.com/news/national/other-states/shamli-village-tense-over-missing-cow/article9202561.ece</a>                  Date Accessed: 9/10/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय, हिंदूवादी संगठन</p> <p>गौ रक्षक संगठन और अनन्य हिंदूवादी संगठन</p>	<p>6/10/2016 दादरी (गौतमबुद्ध नगर)</p> <p>8/10/2016 बाबरी (शामली)</p>
<p><b>बिहार में हुई सांप्रदायिक घटनाएं</b></p> <p><b>मोतिहारी</b></p> <p>मोतिहारी के तुरकौलिया में पूजा पंडाल में 11 अक्टूबर की रात को तोड़फोड़ की खबर के बाद तनाव पैदा हो गया। इस दौरान कई दुकानें जला दी गयीं। तुरकौलिया के आस-पास के कई गांवों में भी इससे तनाव हुआ।</p> <p>मोतिहारी के सुगौली विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। खबरों में घटना के विवरण अलग-अलग हैं। जिससे यह लगता है ऐसी स्थितियां बनी की जुलूस पर पथराव हुआ और इससे हिंसा शुरू हो गयी। उपद्रवियों ने कई घरों में आग लगा दिया और तोड़-फोड़ किया।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>11/10/2016 तुरकौलिया, सुगौली (मोतिहारी)</p>
<p><b>बेतिया</b></p> <p>बेतिया के जमादार टोला में मुहर्रम के दौरान टकराव हुआ। इस दौरान हुई मार-पीट में कुछ लोग घायल हो गए।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>12/10/2016 बेतिया</p>
<p><b>भोजपुर</b></p> <p>भोजपुर के पीरो में 12 अक्टूबर को मुहर्रम के जुलूस के दौरान तनाव होने पर हिंसा। भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दिया और दुकानों में तोड़-फोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>12/10/2016 पीरो (भोजपुर)</p>
<p><b>सीतामढ़ी</b></p> <p>सीतामढ़ी के रीगा में ताजिया चौकी के जुलूस के रास्ते के मुद्दे पर दो समुदायों में झड़प और</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>11/10/2016 रीगा</p>



मारपीट हुई।		(सीतामढ़ी)
<b>मधेपुरा</b> मधेपुरा के बिहारीगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो संप्रदायों में मारपीट हुई। प्रदर्शनकारियों ने दो सरकारी अफसरों की गाड़ियां जला दीं। तनाव के हालात कई दिन तक रहा और दुकानें बंद रहीं।	स्थानीय समुदाय	12/10/2016 बिहारीगंज (मधेपुरा)
<b>गोपालगंज</b> गोपालगंज में 14 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस पर पथराव और फायरिंग के बाद तनाव हुआ। हिंसा के दौरान भीड़ ने आगजनी की और दुकानों को लूटा गया।	स्थानीय समुदाय	14/10/2016 गोपालगंज
<b>औरंगाबाद</b> औरंगाबाद के योगिया गांव में दो गुटों में मारपीट हुई। इस घटना में 12 से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के कई दिनों तक तनाव की स्थिति बनी रही।	स्थानीय समुदाय	13/10/2016 योगिया (औरंगाबाद)
<b>गया</b> गया के बुनियादगंज में मुहर्रम के जुलूस के दौरान छेड़खानी के आरोपों के बाद तनाव पैदा हो गया। इस दौरान हुई हिंसा में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। <a href="http://www.jagran.com/bihar/east-champaran-bihar-after-the-violence-in-east-champaran-lathi-charge-imposed-restrictions-14852939.html">http://www.jagran.com/bihar/east-champaran-bihar-after-the-violence-in-east-champaran-lathi-charge-imposed-restrictions-14852939.html</a> <a href="http://www.jagran.com/bihar/east-champaran-sugauli-and-turkaulia-prohibition-14892527.html">http://www.jagran.com/bihar/east-champaran-sugauli-and-turkaulia-prohibition-14892527.html</a> <a href="http://twocircles.net/2016oct15/1476471685.html#.WCLIS9J97IU">http://twocircles.net/2016oct15/1476471685.html#.WCLIS9J97IU</a> <a href="http://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/other-cities/communal-tension-grips-6-bihar-districtsinternet-banned/articleshow/54869218.cms">http://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/other-cities/communal-tension-grips-6-bihar-districtsinternet-banned/articleshow/54869218.cms</a> <a href="http://livebettiah.in/dispute/">http://livebettiah.in/dispute/</a> <a href="http://naidunia.jagran.com/national-communal-tension-in-bhojpur-mob-torched-vehicles-834887">http://naidunia.jagran.com/national-communal-tension-in-bhojpur-mob-torched-vehicles-834887</a> <a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/bihar-21-arrested-after-clashes-sector-144-in-piro-3083524/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/bihar-21-arrested-after-clashes-sector-144-in-piro-3083524/</a> <a href="http://www.livehindustan.com/news/bihar/article1-two-sides-dispute-and-tension-in-sitamarhi-574783.html">http://www.livehindustan.com/news/bihar/article1-two-sides-dispute-and-tension-in-sitamarhi-574783.html</a> <a href="http://www.bhaskar.com/news/c-268-1039283-pt0073-NOR.html">http://www.bhaskar.com/news/c-268-1039283-pt0073-NOR.html</a> <a href="http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/communal-tension-grips-6-bihar-districts/articleshow/54867746.cms">http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/communal-tension-grips-6-bihar-districts/articleshow/54867746.cms</a> <a href="http://indiatoday.intoday.in/story/bihar-madhepura-madhepura-dm-whatsapp-groups-communal-clashes/1/790341.html">http://indiatoday.intoday.in/story/bihar-madhepura-madhepura-dm-whatsapp-groups-communal-clashes/1/790341.html</a> <a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/communal-tension-bihar-prohibitory-orders-durga-puja-3081635/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/communal-tension-bihar-prohibitory-orders-durga-puja-3081635/</a> <a href="http://www.amarujala.com/bihar/violence-in-bihar-ara-district-21-arrested">http://www.amarujala.com/bihar/violence-in-bihar-ara-district-21-arrested</a> Date Accessed: 31/10/2016	स्थानीय समुदाय	13/10/2016 बुनियादगंज (गया)
<b>पश्चिम बंगाल में तनाव और हिंसा</b> पश्चिम बंगाल के कई जिलों में सांप्रदायिक घटनाएं हुईं। 12 अक्टूबर को उत्तरी 24 परगना, मालदा, हुगली, पश्चिमी मेदिनीपुर, बर्धमान, और मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों में हिंसा हुई। ये घटनाएं दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन और मुहर्रम के दौरान हुईं। खबरों में कहा गया है कि कट्टरपंथी संगठन हिंदू संहति की आपत्तिजनक सोशल पोस्ट से तनाव बढ़ा। <a href="http://hindi.catchnews.com/india/communal-tension-in-four-districts-of-bengal-after-clashes-1476681709.html/fullview">http://hindi.catchnews.com/india/communal-tension-in-four-districts-of-bengal-after-clashes-1476681709.html/fullview</a> <a href="http://www.thehindu.com/news/cities/kolkata/tension-in-four-districts-of-">http://www.thehindu.com/news/cities/kolkata/tension-in-four-districts-of-</a>	हिंदू संहति, स्थानीय समुदाय	12/10/2016 उत्तरी 24 परगना, मालदा, हुगली, पश्चिमी मेदिनीपुर, बर्धमान और मुर्शिदाबाद

<p><a href="http://bengal/article.9227010eccc">bengal/article.9227010eccc</a>  <a href="http://indianexpress.com/article/cities/kolkata/muharram-bengal-bjp-to-compile-report-on-communal-violence-cases-mamata-banerjee-3081525/">http://indianexpress.com/article/cities/kolkata/muharram-bengal-bjp-to-compile-report-on-communal-violence-cases-mamata-banerjee-3081525/</a>                  Date Accessed: 17/10/2016</p>		
<p><b>मध्यप्रदेश में सांप्रदायिक घटनाएं</b></p> <p><b>धार</b>                  धार के देदला, पिपल्याम, धामनोद में 12 अक्टूबर को सांप्रदायिक विवाद हुआ। इस दौरान हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए। उपद्रवियों ने वाहनों और कई घरों में आग लगा दिया। हिंदू जागरण मंच ने धार बंद का आयोजन किया।</p> <p><b>झाबुआ</b>                  झाबुआ के पेटलवाद में मुहर्रम के जुलूस के दौरान तनाव हुआ। आरोप है कि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग जुलूस का रास्ता बदलने के लिए दबाव डाल रहे थे। पेटलवाद में हुई हिंसा में दुकानों में आगजनी हुई। इस घटना को राजनीतिक रंग देते हुए हिंदू जागरण मंच ने बंद का आयोजन किया। पुलिस ने इस विवाद में आरएसएस के 6 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है।</p> <p><b>बड़वानी</b>                  जिले के अंजड़ में बुधवार 12 अक्टूबर को मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवाद हुआ। जुलूस के पहले पटाखे छुड़ाने को लेकर हुए विवाद में सांप्रदायिक हिंसा हुई।</p> <p><b>देवास</b>                  देवास के भौरासा में बुधवार 12 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद हुआ। हिंसक भीड़ ने कुछ दुकानों में आग लगा दिया। इस मामले में प्रशासन ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया।  <a href="http://www.hindustantimes.com/indore/communal-clashes-break-out-in-dhar-dist-two-injured/story-3HCh5oA4m2VwLJAVphk8gJ.html">http://www.hindustantimes.com/indore/communal-clashes-break-out-in-dhar-dist-two-injured/story-3HCh5oA4m2VwLJAVphk8gJ.html</a>  <a href="http://www.hindustantimes.com/indore/two-held-for-attack-during-gandhwani-tension/story-RBwtKjZ1Ch2haTnyQOp6UM.html">http://www.hindustantimes.com/indore/two-held-for-attack-during-gandhwani-tension/story-RBwtKjZ1Ch2haTnyQOp6UM.html</a>  <a href="http://naidunia.jagran.com/madhya-pradesh/jhabua-petlawad-closed-people-do-blockade-fire-on-store-835455">http://naidunia.jagran.com/madhya-pradesh/jhabua-petlawad-closed-people-do-blockade-fire-on-store-835455</a>  <a href="http://hindi.pradesh18.com/news/madhya-pradesh/dhar/section-144-imposed-in-parts-of-dhar-and-dewas-1497859.html">http://hindi.pradesh18.com/news/madhya-pradesh/dhar/section-144-imposed-in-parts-of-dhar-and-dewas-1497859.html</a>  <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/Communal-tension-in-MP-on-Muharram-eve/articleshow/45030426.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/Communal-tension-in-MP-on-Muharram-eve/articleshow/45030426.cms</a>  <a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/hindu-outfit-calls-bandh-in-madhya-pradesh-district-3083539/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/hindu-outfit-calls-bandh-in-madhya-pradesh-district-3083539/</a>  <a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/rss-men-beaten-petlawad-communal-violence-muharram-meet-arrested-workers-3094061/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/rss-men-beaten-petlawad-communal-violence-muharram-meet-arrested-workers-3094061/</a>                  Date Accessed: 25/10/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p> <p>आरएसएस</p> <p>स्थानीय समुदाय</p> <p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>12/10/2016 देदला, पिपल्याम, धार</p> <p>12/10/2016 पेटलवाद (झाबुआ)</p> <p>12/10/2016 अंजड़ (बड़वानी)</p> <p>12/10/2016 भौरासा (देवास)</p>
<p><b>कर्नाटक में सांप्रदायिक घटनाएं</b></p> <p><b>बेलागावी</b>                  कर्नाटक के बेलागावी में धार्मिक झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ। दोनों समुदायों के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। हिंसा के दौरान कई लोग घायल हुए और गाड़ियों को जला दिया गया।</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>11/10/2016 बेलागावी (कर्नाटक)</p>

<p>इस घटना में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।  <a href="http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs//181016rss-worker-murder-attacks-aimed-at-creating-communal-tension-in-karnataka.html">http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs//181016rss-worker-murder-attacks-aimed-at-creating-communal-tension-in-karnataka.html</a>                  Date Accessed: 12/10/2016</p> <p><b>गुलबर्ग</b>                  गुलबर्ग जिले के शाहबाद में श्रीराम सेना और विहिप ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास किए। मुस्लिम समुदाय को लेकर एक आपत्तिजनक सोशल पोस्ट लगाया गया। और राम की तस्वीर पर गोबर फेंका गया। पुलिस ने साजिश का खुलासा करते हुए श्रीराम सेना के 6 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की है।  <a href="https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&amp;v=yVaWfSzBjBQ">https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&amp;v=yVaWfSzBjBQ</a>                  Date accessed:19/10/2016</p>	<p>श्रीराम सेना और विहिप</p>	<p>12/10/2016 शाहबाद (गुलबर्ग)</p>
<p><b>झारखंड में सांप्रदायिक घटनाएं</b></p> <p><b>डाल्टनगंज</b>                  डाल्टनगंज के खानवा में जमीन के विवाद को लेकर सांप्रदायिक तनाव हुआ। एक पक्ष का दावा है कि भूमि कब्रिस्तान का हिस्सा है जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि अभिलेखों में यह दर्ज नहीं है और यह श्मशान की जमीन है। प्रशासन ने दोनों पक्षों में सुलह करायी।  <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/conflict-over-land-causes-tension-in-daltonganj/articleshow/54823170.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/conflict-over-land-causes-tension-in-daltonganj/articleshow/54823170.cms</a>                  Date Accessed: 13/10/2016</p> <p><b>दुमका</b>                  परगोडीह गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाउडस्पीकर बजाने को लेकर आपत्ति की गयी। इसके बाद उत्तेजित ग्रामीणों ने ताजियों को आग लगा दिया। इस मामले में 36 लोगों को आरोपी बनाया गया और 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।  <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/18-arrested-over-jama-communal-violence/articleshow/54863734.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/18-arrested-over-jama-communal-violence/articleshow/54863734.cms</a>  <a href="http://www.jagran.com/jharkhand/dumka-14862269.html">http://www.jagran.com/jharkhand/dumka-14862269.html</a>                  Date Accessed: 15/10/2016</p> <p><b>चतरा</b>                  टंडवा के बड़गांव में मांस फेंकने को लेकर तनाव हुआ। गांव में प्रतिबंधित मांस फेंके जाने की खबर फैलने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस विवाद में पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।  <a href="http://www.jagran.com/jharkhand/chatra-14876474.html">http://www.jagran.com/jharkhand/chatra-14876474.html</a>                  Date Accessed: 16/10/2016</p> <p><b>गढ़वा</b>                  नगर उंटारी में मुहर्रम जुलूस के दौरान देश विरोधी नारा लगने का आरोप लगा। जुलूस के दौरान गाने बजाए जाने को लेकर भी दो समुदायों के बीच माहौल तनावपूर्ण हुआ। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया।  <a href="http://www.jagran.com/jharkhand/garhwa-14872226.html">http://www.jagran.com/jharkhand/garhwa-14872226.html</a>                  Date Accessed: 13/10/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p> <p>स्थानीय समुदाय</p> <p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>12/10/2016 खानवा (डाल्टनगंज)</p> <p>12/10/2016 परगोडीह (दुमका)</p> <p>15/10/2016 टंडवा (चतरा)</p> <p>13/10/2016 नगर उंटारी (गढ़वा)</p>
<p><b>दिल्ली में सामान्य विवाद को लेकर हुई हिंसा</b>                  पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए सामान्य विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले</p>	<p>स्थानीय</p>	<p>8/10/2016</p>

<p>लिया। दोनों समुदायों की ओर से पथराव किया गया। 23 साल के एक हिंसा में तकरीबन 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में 3-4 आरोपियों की पहचान की है।  <a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/delhi-heavy-police-deployment-in-trilokpuri-as-communal-tensions-rises-after-stone-pelting-3074102/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/delhi-heavy-police-deployment-in-trilokpuri-as-communal-tensions-rises-after-stone-pelting-3074102/</a>                  Date Accessed: 9/10/2016</p>	<p>समुदाय</p>	<p>त्रिलोकपुरी (दिल्ली)</p>
<p><b>वड़ोदरा में हिंसा</b>                  वड़ोदरा के इलाके फतेहपुरा में दो समूहों के बीच धार्मिक जुलूस के रास्ते को लेकर दो समूहों में तीखी बहस हुई और रात में झड़प शुरू हो गयी। दोनों समूहों के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ दंगा करने का एक मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की तहकीकात की जा रही है।  <a href="http://www.bhasha.ptinews.com/news/1488547_bhasha">http://www.bhasha.ptinews.com/news/1488547_bhasha</a>                  Date accessed:3/10/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>3/10/2016 वड़ोदरा (गुजरात)</p>
<p><b>ठाणे में सांप्रदायिक घटनाएं</b>                  ठाणे के भिवंडी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान साम्प्रदायिक हिंसा हुई। पथराव के दौरान 6 लोग घायल हो गए। नवरात्र में बनाए गए प्रवेश द्वार को मुहर्रम के जुलूस के दौरान नुकसान पहुंचने के बाद विवाद शुरू हुआ। और दोनों पक्षों में झड़प होने लगी।  <a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/maharashtra-bhiwandi-tense-after-communal-clash-in-muharram-procession-3079855/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/maharashtra-bhiwandi-tense-after-communal-clash-in-muharram-procession-3079855/</a>                  Date Accessed: 13/10/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>13/10/2016 भिवंडी, ठाणे महाराष्ट्र</p>
<p><b>बीकानेर में सांप्रदायिक हिंसा</b>                  बीकानेर के डूंगरगढ़ में एक धार्मिक स्थल के पास हुए विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा हुई। सालासर जा रहे धार्मिक यात्रा के दौरान ढोल-नगाड़े बज रहा था और इसी दौरान मस्जिद में मातम का आयोजन हो रहा था। पुलिस ने तनाव को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया।  <a href="http://www.amarujala.com/rajasthan/rajasthan-communal-tension-in-dungargarh-hindi-news">http://www.amarujala.com/rajasthan/rajasthan-communal-tension-in-dungargarh-hindi-news</a>                  Date accessed:24/10/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>23/10/2016 डूंगरगढ़, बीकानेर (राजस्थान)</p>

## सांप्रदायिक रणनीति

## सांप्रदायिक संगठन

रणनीति	सम्मिलित संगठन/ समूह
<p><b>हिंदू पलायन की नई जगहें तलाशेंगे आरएसएस</b></p> <p>आरएसएस की रणनीति के तहत उत्तरप्रदेश में पलायन का मुद्दा उठाने के लिए कुछ जगहों को चिन्हित किया जाएगा। संघ से जुड़े संगठन ऐसे क्षेत्र में खास तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दुर्गावाहिनी और बजरंग दल की विशेष शाखाएं खोली जाएंगी। इससे पहले उत्तरप्रदेश के कैराना में हिंदुओं के कथित पलायन का मुद्दा उठाकर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा की गयी थी।</p> <p><a href="http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/politics/vhp-starts-palayan-nahi-parakram-mission-in-kairana/articleshow/54657658.cms">http://navbharattimes.indiatimes.com/metro/lucknow/politics/vhp-starts-palayan-nahi-parakram-mission-in-kairana/articleshow/54657658.cms</a> Date Accessed:3/10/2016</p>	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
<p><b>विहिप देश भर में लगाएगा शिविर</b></p> <p>धर्मांतरण के कथित मुद्दे को उठाने के लिए विहिप देश भर में 50,000 शिविरों का आयोजन करेगा। यह शिविर खास तौर पर पहाड़ी इलाकों, समुद्र-तटीय और आदिवासी बहुल जंगली इलाकों में आयोजित किया जाएगा। विहिप के अंतरराष्ट्रीय सचिव ने यह बयान आंध्रप्रदेश में दिया जहां के 6 दक्षिणी जिलों में 6 दिन का शिविर आयोजित किया गया था।</p> <p><a href="http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/vhp-to-hold-50000-camps-to-prevent-religious-conversions/article9181785.ece">http://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/vhp-to-hold-50000-camps-to-prevent-religious-conversions/article9181785.ece</a> Date Accessed:4/10/2016</p>	विश्व हिंदू परिषद
<p><b>हिंदू महासभा लगाएगी नारायण आप्टे की मूर्ति</b></p> <p>अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने घोषणा की है वे गोडसे के साथ नारायण आप्टे की मूर्ति भी लगाएंगे। नारायण आप्टे महात्मा गांधी की हत्या में सह-आरोपी थे। संगठन ने कहा है कि इस साल के अंत तक अखिल भारतीय हिंदू महासभा के दफ्तरों में यह मूर्ति लगायी जाएगी। 2 अक्टूबर को हिंदू महासभा ने गांधी जयंती के दिन धिक्कार दिवस का आयोजन किया।</p> <p><a href="http://indiatoday.intoday.in/story/nathuram-godse-first-statue-gandhi-jayanti-right-wing-merrut/1/778901.html">http://indiatoday.intoday.in/story/nathuram-godse-first-statue-gandhi-jayanti-right-wing-merrut/1/778901.html</a> <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/After-Godse-now-Hindu-Mahasabha-says-it-will-install-Narayan-Aptes-statu/articleshow/54678611.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/After-Godse-now-Hindu-Mahasabha-says-it-will-install-Narayan-Aptes-statu/articleshow/54678611.cms</a> Date Accessed:5/10/2016</p>	हिंदू महासभा
<p><b>राजस्थान में गौरक्षक संगठनों का आदिवासियों पर हमला</b></p> <p>राजस्थान के राजसमंद जिले की एक घटना में बंजारा आदिवासियों के एक समूह पर गौरक्षक संगठनों ने हमला किया। आरोप है कि बजरंग दल, शिवसेना के कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। घटना उस दौरान हुई जब देर रात मेले से खरीदे हुए 6 जानवरों के साथ लोग लौट रहे थे। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया था।</p> <p><a href="http://www.thehindu.com/news/national/other-states/-2hurt-as-cow-vigilantes-strike-in-">http://www.thehindu.com/news/national/other-states/-2hurt-as-cow-vigilantes-strike-in-</a></p>	बजरंग दल, शिवसेना

<p><a href="http://rajasthan/article.9189348ece">rajasthan/article.9189348ece</a> Date Accessed: 6/10/2016</p>	
<p><b>डोडा में आरएसएस के पथ संचालन से तनाव</b> जम्मू कश्मीर के डोडा कस्बे में आरएसएस के पथ संचालन के बाद सीमांत इलाकों में तनाव हुआ। आरएसएस कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि इस दौरान उन्होंने उत्तेजक नारेबाजी की। इससे पहले भी इलाके में आरएसएस के कार्यक्रमों के कारण तनाव पैदा हुआ है। स्थानीय लोगों ने राज्य के कई इलाकों में पहले से तनाव के हालात देखते हुए ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति न देने के लिए कहा है। <a href="http://www.greaterkashmir.com/news/jammu/rss-rally-creates-ripples-in-doda/230209.html">http://www.greaterkashmir.com/news/jammu/rss-rally-creates-ripples-in-doda/230209.html</a> Date Accessed:6/10/2016</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p>
<p><b>गुजरात में गरबा कार्यक्रम में मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक अभियान</b> बजरंग दल और विहिप ने गुजरात में मुस्लिमों के गरबा कार्यक्रम में शामिल होने के खिलाफ अभियान चलाता रहा है। इस बार कुछ जगहों पर संगठन के लोगों ने गरबा कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों पर गौमूत्र का छिड़काव किया। इससे जुड़े हुए एक विवाद में एक पीड़ित देवदत्त सिंह राउल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Cow-urine-shower-at-garbas-raises-stink/articleshow/.54746553cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Cow-urine-shower-at-garbas-raises-stink/articleshow/.54746553cms</a> Date Accessed: 8/10/2016</p>	<p>बजरंग दल, विहिप</p>
<p><b>कॉलेज में बुर्के पहनने के खिलाफ प्रदर्शन</b> पश्चिम बंगाल के हवैरी जिले में लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों के बुर्का पहनने का विरोध करने के लिए भगवा रंग का स्कार्फ बांधकर प्रदर्शन किया। कॉलेज की प्रबंधन समिति ने बुर्का न पहने को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया और कहा गया कि लड़कियां कॉलेज के दौरान धार्मिक कपड़े न पहनें। <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/hubballi/Saffron-scarf-protest-against-burqas-in-Haveri-colleges-a-worry/articleshow/.54759989cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/hubballi/Saffron-scarf-protest-against-burqas-in-Haveri-colleges-a-worry/articleshow/.54759989cms</a> Date Accessed: 9/10/2016</p>	<p>स्थानीय छात्र</p>
<p><b>विहिप के नेता ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश</b> इलाहाबाद में विहिप के नेता अभिषेक यादव ने मुहर्रम के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की। विहिप कार्यकर्ता को लोगों ने बुर्का पहने हुए पकड़ लिया और पिटाई की। विहिप कार्यकर्ता पर आरोप था कि उसने एक महिला के साथ अभद्रता की और धार्मिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पर एफआईआर दर्ज किया। <a href="http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/varanasi/allahabad/vishwa-hindu-parishads-neta-clad-in-burqa-tries-harassing-woman-during-a-muharram-milad-program/articleshow/54777068.cms">http://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttar-pradesh/varanasi/allahabad/vishwa-hindu-parishads-neta-clad-in-burqa-tries-harassing-woman-during-a-muharram-milad-program/articleshow/54777068.cms</a> Date Accessed:10/10/2016</p>	<p>विहिप</p>
<p><b>गुजरात में गौमूत्र को बताया महिलाओं की सुंदरता के लिए जरूरी</b> गुजरात गौसेवा और गौचर विकास बोर्ड की ओर से जारी एक सलाह में कहा गया है कि गाय के दूध, घी, यूरिन और गोबर में ऐसे तत्व होते हैं जिनके इस्तेमाल से महिलाएं एजिप्ट की रानी क्लियोपेट्रा जैसी खूबसूरती पा सकती है। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित आरोग्य गीता के एक अध्याय में इसका उल्लेख किया गया है। <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Get-Cleopatras-beauty-with-cow-urine-Gujarat-board/articleshow/.54788166cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Get-Cleopatras-beauty-with-cow-urine-Gujarat-board/articleshow/.54788166cms</a></p>	<p>गुजरात गौसेवा और गौचर विकास बोर्ड</p>

<p>Date Accessed: 11/10/2016</p>	
<p><b>मुरादाबाद में आरएसएस की शस्त्र-पूजा के दौरान फायरिंग</b>  उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद में कटघर इलाके में शस्त्र पूजा के आयोजन के दौरान बजरंग दल और विहिप के नेताओं ने फायरिंग की। यह कार्यक्रम धारा 144 लगे होने के बावजूद आयोजित किया गया। इस मामले में पुलिस ने दो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। फायरिंग के दौरान अवैध हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया।  <a href="http://abpnews.abplive.in/india-news/uttar-pradesh/rss-activists-violate-the-rule-in-moradabad-475301/">http://abpnews.abplive.in/india-news/uttar-pradesh/rss-activists-violate-the-rule-in-moradabad-475301/</a>  Date Accessed:12/10/2016</p>	<p>बजरंग दल, विहिप</p>
<p><b>म.प्र. में आरएसएस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के बाद पुलिसकर्मों निलंबित</b>  मध्यप्रदेश में बालाघाट जिले के बैहर कस्बे में 25-26 सितंबर की रात आरएसएस के प्रचारक सुरेश यादव को गिरफ्तार किया गया था। उन पर आपत्तिजनक सोशल पोस्ट भेजने का आरोप था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गयी और थाने का घेराव कर सांप्रदायिक नारे लगाए। राजनीतिक दबाव में पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया और 8 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया।  <a href="http://hindi.catchnews.com/india/balaghat-the-story-of-five-firs-1476228951.html/fullview">http://hindi.catchnews.com/india/balaghat-the-story-of-five-firs-1476228951.html/fullview</a>  Date Accessed:12/10/2016</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p>
<p><b>हरियाणा में आरएसएस का सदस्यता अभियान</b>  आरएसएस ने शहरी इलाकों में कार्पोरेट कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए आनलाइन सदस्यता अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत हरियाणा में गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकूला में खास तौर पर सदस्य बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में 20,000 सदस्यों में से 10,000 सदस्य गुड़गांव से हैं। इन सदस्यों में आईटी से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर, छात्र, अध्यापक और व्यवसायी हैं।  <a href="http://www.hindustantimes.com/gurgaon/rss-targets-urban-populace-gurgaon-online-membership-going-up-to-10k/story-j3HLCNJZfKuViBnLCVbrSI.html">http://www.hindustantimes.com/gurgaon/rss-targets-urban-populace-gurgaon-online-membership-going-up-to-10k/story-j3HLCNJZfKuViBnLCVbrSI.html</a>  Date Accessed:12/10/2016</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p>
<p><b>जीसस और पैगंबर के सहारे गुजरात में गौरक्षा कार्यक्रम</b>  गुजरात गौसेवा और गौचर विकास बोर्ड जीसस क्राइस्ट और पैगंबर मुहम्मद को गौरक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सरकारी वेबसाइट पर गौ वंदना-कार्य सरिता शीर्षक से प्रकाशित सामग्री में प्रमुख व्यक्तियों के कथन लगाए गए हैं जिसमें जीसस और पैगंबर के ऐसे कथन लगाए गए हैं जिनमें कहा गया है कि गाय महत्वपूर्ण है और उसकी हत्या करना पाप है। दोनों धर्मों के संतों की ओर से बयान आया है कि जीसस और पैगंबर के जीवन में ऐसा कोई प्रसंग मौजूद हो,इसका प्रमाण नहीं है।  <a href="http://www.indiatimes.com/news/india/gujarat-gauseva-board-invokes-prophet-muhammad-jesus-to-see-cow-protection-clerics-cry-misquotation-.263448html">http://www.indiatimes.com/news/india/gujarat-gauseva-board-invokes-prophet-muhammad-jesus-to-see-cow-protection-clerics-cry-misquotation-.263448html</a>  Date Accessed: 13/10/2016</p>	<p>गुजरात गौसेवा और गौचर विकास बोर्ड</p>
<p><b>पंजाब में आरएसएस की गतिविधियों से अकाल तख्त नाराज</b>  अकाल तख्त ने आरएसएस के दशहरा मार्च के दौरान सिखों के धार्मिक चिन्ह धारण करने पर आपत्ति जतायी है। अकाल तख्त ने कहा है कि आरएसएस की गतिविधियों से सिखों की धार्मिक भावना आहत हुई है। पंजाब में इससे पहले सिखों के रैडिकल समूहों और आरएसएस के धड़ों के साथ झड़प की खबरें आती रही हैं। हाल ही में पंजाब आरएसएस के पदाधिकारी की</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दशमेश रेजीमेंट</p>

<p>हत्या में सिख रैडिकल समूह पर आरोप है, जिसकी जिम्मेदारी दशमेश रेजीमेंट ने ली है।  <a href="http://www.hindustantimes.com/punjab/akal-takht-objects-to-rss-members-wearing-daggers-akin-to-kirpan/story-EVyD7xGcEqkX8OuHaXJG4J.html">http://www.hindustantimes.com/punjab/akal-takht-objects-to-rss-members-wearing-daggers-akin-to-kirpan/story-EVyD7xGcEqkX8OuHaXJG4J.html</a>  <a href="http://www.hindustantimes.com/india-news/sikh-radicals-suspected-to-have-killed-punjab-rss-leader-gagneja/story-fmXQfw3wzduQJzhM17lgWI.html">http://www.hindustantimes.com/india-news/sikh-radicals-suspected-to-have-killed-punjab-rss-leader-gagneja/story-fmXQfw3wzduQJzhM17lgWI.html</a>                      Date Accessed:13/10/2016</p>	
<p><b>उदयपुर में हिंदू महासभा के कार्यक्रम का विरोध</b>                      उदयपुर में हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी के एक कार्यक्रम का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रशासन की अनुमति नहीं ली गयी थी। लेकिन शहर में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए थे। मुस्लिम समुदाय की आपत्ति के बाद प्रशासन ने इस आयोजन पर रोक लगा दिया।  <a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/udaipur/Hindu-Mahasabha-leaders-visit-called-off-after-stir-by-Muslims/articleshow/54843112.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/udaipur/Hindu-Mahasabha-leaders-visit-called-off-after-stir-by-Muslims/articleshow/54843112.cms</a>                      Date Accessed:14/10/2016</p>	<p>हिंदू महासभा</p>
<p><b>वृंदावन में नास्तिक सम्मेलन पर हमला</b>                      वृंदावन में विश्व हिंदू परिषद और धार्मिक संतों के विरोध के बाद नास्तिक सम्मेलन रद्द कर दिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन 14-15 अक्टूबर को स्वामी बालेंदु ने किया था। इस कार्यक्रम का विरोध विहिप, धर्म रक्षा संघ सहित कई धर्म के धार्मिक नेता ने किया। करीब 100 प्रदर्शनकारियों ने आयोजनस्थल पर पहुंचकर नारेबाजी की और विंदु सेवा संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।  <a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/atheist-conclave-cancelled-after-religious-leaders-protest-in-mathura-3083521">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/atheist-conclave-cancelled-after-religious-leaders-protest-in-mathura-3083521</a>                      Date Accessed: 15/10/2016</p>	<p>विहिप, धर्म रक्षा संघ और विभिन्न धार्मिक संगठन</p>
<p><b>पुणे में हिंदू पलायन का मुद्दा</b>                      हिंदू जनजागृति समिति की वेबसाइट पर एक पोस्ट लगायी गयी जिसमें कथित तौर पर पुणे से हिंदू आबादी के पलायन के बारे में लिखा गया। पोस्ट में इसकी तुलना कश्मीर और कैराना से किया गया। इस पलायन का कारण पुणे में जिहादी विचार के प्रति लगाव में बढ़त को बताया गया। पुलिस ने ऐसे दावे को झूठा बताते हुए पुलिस जांच की बात कही है।  <a href="http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/181016/police-rubbish-claims-of-jihadi-scare-forcing-hindus-to-leave-pune.html">http://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/181016/police-rubbish-claims-of-jihadi-scare-forcing-hindus-to-leave-pune.html</a>                      Date Accessed:18/10/2016</p>	<p>हिंदू जनजागृति समिति</p>
<p><b>कोझिकोड में हिंदू एक्य वेदी की रणनीति</b>                      केरल के कोझिकोड में हिंदू एक्य वेदी ने मांग की है कि हिंदू मंदिरों के आस-पास मांसाहारी होटल न खोले जाएं। हिंदूवादी संगठन ने एक प्रस्तावित होटल के सामने हॉर्डिंग लगाकर विरोध किया। होटल ने कहा है कि जबकि अभी यह भी तय नहीं है कि होटल का स्वरूप कैसा होगा। हिंदू एक्य वेदी पर आरोप है कि वह ऐसे मुद्दे उठाकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है।  <a href="http://www.jansatta.com/rajya/dispute-in-kozhikode-for-non-veg-hotel-near-temple/166764/">http://www.jansatta.com/rajya/dispute-in-kozhikode-for-non-veg-hotel-near-temple/166764/</a>                      Date Accessed:18/10/2016</p>	<p>हिंदू एक्य वेदी</p>
<p><b>बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल के बयान को लेकर विवाद</b>                      बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल के सम्मेलन में मौलाना तौकीर रजा खां ने आपत्तिजनक</p>	<p>इत्तेहाद-ए-मिल्लत कौंसिल,</p>



<p>बयान दिया। इस बयान का विरोध करने के लिए विहिप और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। तौकीर रजा ने बयान दिया था कि हिंदुओं में भी तो एक औरत के पांच पति होते हैं।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/VHP-threatens-stir-against-controversial-remark-by-Sunni-Barelvi-cleric/articleshow/54942636.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/bareilly/VHP-threatens-stir-against-controversial-remark-by-Sunni-Barelvi-cleric/articleshow/54942636.cms</a> Date Accessed: 19/10/2016</p>	<p>विहिप, बजरंग दल</p>
<p><b>उडुपी में दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यक्रम से विवाद</b></p> <p>कर्नाटक के उडुपी में प्रशासन ने कनक नेड और स्वाभिमानी नेड को आयोजित करने से मना किया। आरोप है कि प्रोग्रेसिव संगठनों द्वारा दलितों के चलो उडुपी कार्यक्रम का विरोध करने के लिए कनक नेड का आयोजन यूथ ब्रिगेड द्वारा किया जाना था। यूथ ब्रिगेड ने कहा था कि दलितों के कार्यक्रम से उडुपी प्रदूषित हो गया है जिसे वे साफ करेंगे।</p> <p><a href="http://www.thehindu.com/todays-paper/permission-denied-to-kanaka-nade-swabhimani-nade/article.9254086ece">http://www.thehindu.com/todays-paper/permission-denied-to-kanaka-nade-swabhimani-nade/article.9254086ece</a> Date Accessed: 22/10/2016</p>	<p>यूथ ब्रिगेड</p>
<p><b>गौरक्षकों के निशाने पर मेवात</b></p> <p>हरियाणा के मेवात में गौरक्षा के मुद्दों के कारण मेव समुदाय के लोगों को समस्या हो रही है। हरियाणा में मेव समुदाय के लोगों के साथ भेद-भाव किया जाता है और पुलिस भी धार्मिक कारणों से मेव समुदाय के लोगों को संदेह से देखती है। जबकि 200 गांवों की पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित कर गाय की तस्करी आदि के खिलाफ सहमति जतायी है। लेकिन मेवात के इलाके में राजनैतिक कारणों से ऐसे मुद्दों को उछाला जा रहा है।</p> <p><a href="http://www.tribuneindia.com/news/sunday-special/people/the-m-factor-in-mewat/.313481html">http://www.tribuneindia.com/news/sunday-special/people/the-m-factor-in-mewat/.313481html</a> Date Accessed: 23/10/2016</p>	<p>गौरक्षक संगठन, स्थानीय प्रशासन</p>
<p><b>दीवाली के कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के शामिल होने का विरोध</b></p> <p>कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा 'भावएक्यता दिवाली' के आयोजन पर विहिप, बजरंग दल सहित कई संगठनों ने विरोध आयोजित किया। कादरी के श्री मंजूनाथ मंदिर में इस पर आयोजित कार्यक्रम का हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस के एमएलसी इवान डिसूजा को गैर हिंदू होने के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं देना चाहिए।</p> <p><a href="http://www.business-standard.com/article/pti-stories/cong-mlc-d-souza-s-diwali-fete-plan-in-temple-draw-ire-of-116102700892_.1html">http://www.business-standard.com/article/pti-stories/cong-mlc-d-souza-s-diwali-fete-plan-in-temple-draw-ire-of-116102700892_.1html</a> Date Accessed: 27/10/2016</p>	<p>विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल</p>
<h2>अभिव्यक्ति की आजादी</h2>	
<p><b>इप्टा कार्यक्रम के दौरान तोड़-फोड़</b></p> <p>इंदौर में इंडियन पीपुल थियेटर एसोसिएशन के कार्यक्रम के दौरान दक्षिणपंथी संगठनों ने हमला किया। आरोप है कि इस दौरान इप्टा के सदस्यों को पीटा गया और पत्थरबाजी हुई। दक्षिणपंथी संगठनों ने इप्टा के कार्यक्रम को राष्ट्रविरोधी बताया। इस हमले में बजरंग दल के साथ-साथ भारत स्वाभिमान मंच के लोग शामिल थे</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/IPTAs-stand-against-surgical-strike-attracts-right-wing-protest-in-Indore/articleshow/.54679966cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/IPTAs-stand-against-surgical-strike-attracts-right-wing-protest-in-Indore/articleshow/.54679966cms</a> Date Accessed: 4/10/2016</p>	<p>बजरंग दल, भारत स्वाभिमानी मंच</p>
<p><b>रामलीला में मुस्लिमों के शामिल होने का विरोध</b></p>	

<p>मुजफ्फरनगर के गांव में आयोजित रामलीला में हिंदी फिल्मों के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के शामिल होने का विरोध किया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने गांव की रामलीला में पौराणिक पात्र मारीच की भूमिका करने वाले थे। शिवसेना ने इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए कहा था कि किसी मुस्लिम को रामलीला में अभिनय करने नहीं देंगे। जिसके बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को निरस्त कर दिया।</p> <p><a href="http://www.ndtv.com/india-news/forced-out-of-ramlila-show-nawazuddin-siddiqui-says-childhood-dream-crushed-1471312">http://www.ndtv.com/india-news/forced-out-of-ramlila-show-nawazuddin-siddiqui-says-childhood-dream-crushed-1471312</a> Date Accessed:7/10/2016</p>	<p>शिवसेना</p>
<p><b>शिक्षा का भगवाकरण</b></p>	
<p><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आरएसएस के सुझाव</b></p> <p>शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास चाहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। सभी शोध कार्यों में देश हित निहित होनी चाहिए। ऐसा न हो तो यूजीसी को इसके लिए वित्तीय सहायता नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा पाठ्यपुस्तकों से ऐसे अंश निकाल देना चाहिए जो भारतीय इतिहास, संस्कृति, परंपरा, पंथो आदि की गलत व्याख्या प्रस्तुत करते हैं।</p> <p><a href="http://scroll.in/article/819794/the-rss-has-a-proposal-to-award-phds-to-people-who-havent-gone-to-university">http://scroll.in/article/819794/the-rss-has-a-proposal-to-award-phds-to-people-who-havent-gone-to-university</a> Date Accessed:24/10/2016</p>	<p>शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास</p>
<p><b>आरएसएस से जुड़े संस्थान को मुंबई यूनीवर्सिटी से संबद्ध</b></p> <p>आरएसएस से जुड़े रामभाऊ म्हाल्गी प्रबोधिनी को मुंबई यूनीवर्सिटी ने शोध संस्थान के तहत मान्यता दी है। 1982 में बना संस्थान आरएसएस और भाजपा के नेताओं के लिए कार्यक्रम चलाता रहा है। शोध संस्थान का दर्जा पाने के बाद संस्थान में पीएचडी और एमए राजनीति विज्ञान के कोर्स चलेंगे। मुंबई यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर इस राम भाऊ म्हाल्गी प्रबोधिनी के डायरेक्टर पद पर रह चुके हैं।</p> <p><a href="http://www.dnaindia.com/academy/report-rss-linked-institution-gets-mumbai-university-affiliation-2268038">http://www.dnaindia.com/academy/report-rss-linked-institution-gets-mumbai-university-affiliation-2268038</a> Date Accessed:28/10/2016</p>	<p>मुंबई यूनीवर्सिटी, राम भाऊ म्हाल्गी प्रबोधिनी</p>

**न्यायिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया**

<p><b>बिजनौर दंगा में भाजपा नेता का आत्मसमर्पण</b></p> <p>बिजनौर दंगा मामले में भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 16 सितंबर को पेडा गांव में एक मुस्लिम परिवार के तीन सदस्यों को मार दिया गया था। पेशे से वकील ऐश्वर्य चौधरी आरएसएस से जुड़े संगठन अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष हैं और उन पर आरोप है कि वह उस दिन भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे।</p> <p><a href="http://www.thehindu.com/news/national/other-states/bjp-leader-surrenders-in-bijnor-riots-case/article9176309.ece">http://www.thehindu.com/news/national/other-states/bjp-leader-surrenders-in-bijnor-riots-case/article9176309.ece</a> Date Accessed:2/10/2016</p>
<p><b>हिंदू मुन्नानी कार्यकर्ता हत्या मामले में पांच लोग गिरफ्तार</b></p> <p>कोयंबटूर पुलिस ने पांच लोगों को गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारियां हिंदू मुन्नानी के कार्यकर्ता की हत्या के बाद हुई हिंसा के मामले में किया है। आरोप है कि इन्होंने एक मस्जिद के सामने पेट्रोल बम फेंका। इस हिंसा में कई मुस्लिम विक्रेताओं की दुकानों में आग लगा दी गयी।</p>

<http://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2016/oct/02/five-arrested-for-violence-after-kovai-munnani-leaders-murder-1518776.html?pm=home>

Date Accessed:2/10/2016

### कमलेश तिवारी पर रासुका हटा

हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी पर एनएसए हटाने का निर्णय लिया। हाइकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। कमलेश तिवारी ने पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। कमलेश तिवारी के वकील ने इस मामले में सेक्शन 3(3) का उल्लेख किया।

<http://scroll.in/latest/818131/allahabad-high-court-sets-aside-hindu-mahasabha-leaders-detention-under-national-security-act>

Date Accessed:3/10/2016

### मद्रास हाइकोर्ट ने आरएसएस को मार्च की अनुमति दी

मद्रास हाइकोर्ट ने आरएसएस की याचिका पर विचार करते हुए कुछ निर्देशों के साथ पथ संचालन की अनुमति दे दी। तमिलनाडु में नवंबर महीने में 14 जगहों पर मार्च आयोजित किया जाएगा। इससे पहले यह कार्यक्रम अक्टूबर में होना था और प्रशासन ने पालिका चुनावों और हिंदू मुन्नानी के नेता की हत्या के बाद हुए तनाव को देखते हुए कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। अदालत ने कहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता इस दौरान गैरकानूनी गतिविधि नहीं करेंगे और ऐसा कोई नारा नहीं लगाएंगे जिससे सांप्रदायिक भावना भड़के।

<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/rss-allowed-to-take-out-route-marches-cadres-shouldnt-indulge-in-unlawful-activities-madras-hc-3065236/>

Date Accessed:4/10/2016

### कोझकोड में सलाफी प्रचारक पर यूएपीए के तहत मामला

कोझकोड में सितंबर 2014 में दिए गए भाषण के मामले में सलाफी प्रचारक शम्सुद्दीन फरीद पर UAPA (Unlawful Activities Prevention Act) के तहत मामला चलेगा। आरोपी सलाफी प्रचारक पर हेत स्पीच करने के लिए केस दर्ज हुआ था, जिसमें कहा गया था कि भाषण में इस्लामिक राज्य के प्रति समर्थन था।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/kozhikode/Hate-speech-case-UAPA-slapped-on-Shamsudeen/articleshow/.54726807cms>

Date Accessed:7/10/2016

### गुजरात हाइकोर्ट का ताजिया जुलूस का रास्ता बहाल करने से इंकार

गुजरात हाइकोर्ट में एक याचिका डाली गयी थी जिसमें मांग की गयी थी कि ताजिया के जुलूस को पारंपरिक रास्ते से जाने की अनुमति मिले। 14 वीं शताब्दी के सूफी संत इमामशाह की मजार पर दोनों समुदाय के बीच अधिकार को लेकर विवाद है और 2003 के दंगों को बाद से इस रास्ते से जुलूस आने पर रोक है। हाइकोर्ट ने जुलूस का रास्ता बहाल करने की याचिका को अस्वीकार कर दिया।

<http://indianexpress.com/article/cities/gujarat-hc-junks-plea-to-allow-tazia-to-imamshahs-shrine-at-pirana-3071586/>

Date Accessed:8/10/2016

### फगवाड़ा हिंसा जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई

जुलाई में हुई फगवाड़ा हिंसा में जांच रिपोर्ट के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एडीशनल डिप्टी कमिश्नर इकबाल सिंह संधू ने रिपोर्ट में कहा था कि पुलिस ने इस मामले में गैरकानूनी कार्रवाई की।

<http://www.tribuneindia.com/news/jalandhar/no-headway-in-violence-case/306596.html>

Date Accessed:8/10/2016

### विवादित सोशल पोस्ट पर प्रवासी भारतीय गिरफ्तार

मंगलुरु पुलिस ने शाफी बेल्लारे को कतील दुर्गापरमेश्वरी, राम और अन्य देवताओं पर विवादास्पद पोस्ट के मामले में गिरफ्तार किया। अगस्त

2015 में सोशल साइट की पोस्ट के आधार पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। बहरीन में काम करने वाले शाफी बेल्लारे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।

<http://www.thehindu.com/news/cities/Mangalore/derogatory-post-on-kateel-durgaparameshwari-one-arrested/article9207818.ece>  
Date Accessed:11/10/2016

### हिंदू मक्कल काची का नेता शस्त्र पूजा के बाद गिरफ्तार

हिंदू मक्कल काची के नेता अर्जुन संपथ को अपने घर में शस्त्र पूजा आयोजित करने के लिए गिरफ्तार किया गया। अर्जुन संपथ ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थीं। पुलिस ने इस मामले में 153(ए) और 25(ए) के तहत सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए मामला दर्ज किया।

<http://indiatoday.intoday.in/story/arjun-samath-hindu-makkal-katchi-hindu-terrorism-ayudha-puja/1/785698.html>  
Date Accessed:13/10/2016

### वरुण कश्यप जमानत पर रिहा, पुलिस पर आरोप

अगस्त में फिल्म एग्जीक्यूटिव वरुण कश्यप ने आरोप लगाया था कि एक ऑटो चालक ने उनका चमड़े का बैग देखकर गाय की खाल से बने होने का आरोप लगाया और परेशान किया। पुलिस ने इस मामले में वरुण कश्यप की शिकायत को झूठा बताया और उन्हें जेल भेज दिया। जमानत पर रिहा हुए वरुण कश्यप ने इसका खंडन किया है कि उन्होंने पुलिस को कहा है कि वे हिंदुओं से नफरत करते हैं।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/i-hate-hindus-wanted-to-spark-communal-tensions/articleshow/54827218.cms>  
<http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/barun-kashyap-i-am-not-anti-hindu-i-stick-by-my-statement/story-S0mRuWi7Baea00uxkHhuzL.html>

Date Accessed:14/10/2016

### सोशल पोस्ट के विवाद में मेरठ के स्कूल प्रिंसिपल पर एफआईआर

मेरठ में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाके सरधाना में एक स्कूल प्रिंसिपल को नरेन्द्र मोदी पर फेसबुक पोस्ट के मामले में केस दर्ज किया गया। मुदस्सिर राना ने दशहरे के दिन लगायी गयी पोस्ट में नरेन्द्र मोदी और कुछ भाजपा नेताओं की तुलना रावण से की थी। पुलिस ने बजरंग दल नेता की शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 152-ए के तहत मामला दर्ज किया।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/School-principal-lands-in-jail-for-depicting-Modi-as-Ravana-in-Facebook-post-/articleshow/.54858325cms>

Date Accessed:15/10/2016

### बिहार के गोपालगंज विवाद में पुलिस केस

बिहार के गोपालगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प में पुलिस ने जिला पार्षद सुभाष सिंह समेत तीन लोगों को अभियुक्त बनाया है। इसमें कांग्रेस के एक स्थानीय नेता को भी अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में नामजद आरोपी फरार हैं।

<http://www.prabhatkhabar.com/news/gopalganj/story/878187.html>

Date Accessed:18/10/2016

### केरल में हेट स्पीच का मामला दर्ज

केरल के मलप्पुरम में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सांइटिफिक हेरिटेज के डायरेक्टर एन. गोपालकृष्णन के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया। हाइकोर्ट के वकील जहांगीर ने इस मामले में केस दर्ज कराया। आरोप है कि आरएसएस से जुड़े एन. गोपालकृष्णन ने मलप्पुरम जिले में मुस्लिम आबादी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। भाषण तीन साल पहले का बताया गया है।

<http://english.mathrubhumi.com/news/kerala/dr-n-gopalakrishnan-booked-for-hate-speech-pothukal-police-1.1440750>

Date Accessed:20/10/2016

### मुजफ्फरपुर में दुर्गा विसर्जन के विवाद में मामला दर्ज

मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र में 19 अक्टूबर को सांप्रदायिक हालात बिगाड़ने को लेकर पूर्व विधायक राजू कुमार सिंह पर केस दर्ज हुआ।

आरोप है कि दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान राजू कुमार सिंह, बजरंग दल भीड़ के साथ आपत्तिजनक भाषण दे रहे थे। इस मामले में 54 लोगों पर नामजद केस दर्ज किया गया है, जबकि 500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।

<http://www.prabhatkhabar.com/news/muzaffarpur/story/879040.html>

Date Accessed:20/10/2016

### गौरक्षा विवादों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार

सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों में गौरक्षा के विवादों में हुई हिंसा पर सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने इन मामलों में केन्द्र और राज्य सरकारों से अपना पक्ष रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दी गयी थी जिसमें गौरक्षक संगठनों का लाइसेंस रद्द करने के अलावा पाबंदी की मांग की गयी थी।

<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/cow-vigilantes-pils-on-gau-raksha-supreme-court-wants-centre-states-to-respond-3095464>

Date Accessed:22/10/2016

### झारखंड सरकार ने दिया ईसाई मिशनरियों की जांच का आदेश

झारखंड सरकार ने ईसाई मिशनरियों के खिलाफ 310 करोड़ रूपए के विदेशी चंदे से जुड़े मामले जांच करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि यह जांच इंटेलेजेंस रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। आरोप है कि आदिवासी बहुल इलाकों में ईसाई मिशनरियों ने इस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण कराने के लिए किया।

<http://www.hindustantimes.com/india-news/jharkhand-to-probe-ngos-for-diverting-foreign-funds-for-religious-conversions/story-7JsWycadlo58cRXi7ybUL.html>

Date Accessed:22/10/2016

### मक्का ब्लास्ट केस में गवाहों ने बदला बयान

2007 में ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में बम विस्फोट के मामले में प्रत्यक्षदर्शी सीबीआई को दिए गए बयान से मुकर गए हैं। झारखंड के कृषिमंत्री रणधीर सिंह ने कहा है कि उनका इस केस के मुख्य आरोपी सुनील जोशी से कोई परिचय नहीं है और सीबीआई को दिया गया बयान उन्होंने दबाव में आकर दिया था।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/Jharkhand-minister-retracts-statement-in-Mecca-blast-case/articleshow/54968252.cms>

Date Accessed:22/10/2016

### बिलकिस बानो केस: सीबीआई ने दोषियों को मौत की सजा देने की अपील की

गुजरात के 2002 के दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार के मामले में सीबीआई ने तीन दोषियों को मौत की सजा देने की अपील दायर की है। इससे पहले निचली अदालत के फैसले में आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बचाव पक्ष के वकील हर्षद पोंडा ने पीड़िता के पक्ष के कुछ गवाहों से फिर से जिरह की मांग की थी जिसे हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।

<http://www.ndtv.com/india-news/bilkis-bano-case-no-permission-for-re-examination-of-witnesses-1465390>

Date Accessed:23/10/2016

### इंडियन मुस्लिम ऑब्जर्वर के संपादक को धमकी पर पुलिस शिकायत

इंडियन मुस्लिम ऑब्जर्वर के संस्थापक, एडिटर दानिश अहमद खान को 22 अक्टूबर को अज्ञात लोगों ने फोन पर धमकी थी। फोन कॉल करके मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी थी। इससे संबंधित शिकायत जामिया नगर पुलिस स्टेशन में 23 अक्टूबर को दर्ज हुई।

<http://twocircles.net/2016oct24/1477315753.html#.WBWxQ9J97IV>

Date Accessed:24/10/2016

### राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कैराना विवाद को किया खारिज

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उत्तरप्रदेश के कैराना में हिंदुओं के पलायन को खारिज किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी लोग इलाके से बाहर गए हैं, वह रोजगार और नए अवसरों की तलाश के लिए गए। अल्पसंख्यक आयोग ने एनएचआरसी की रिपोर्ट के जनसंख्या में आए बदलाव को खारिज किया है।

<http://timesofindia.indiatimes.com/india/NCM-says-no-evidence-of-large-scale-migration-of-any-community-from-Kairana/articleshow/55057536.cms>

Date Accessed:25/10/2016

### गौमांस मामले में पुलिस की पिटाई से आरोपी की मौत

झारखंड के नारायणपुर पुलिस थाने में गौमांस के मामले में मिन्हाज अंसारी को बुरी तरह से पीटा गया जिससे उनकी मौत हो गयी। लेकिन हत्या के मामले में बीस दिन से अधिक बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में थानाध्यक्ष हरीश पाठकस और विहिप नेता सोनू सिंह आरोपी हैं।

<http://scroll.in/article//819729whatsapp-calf-photo-arrest-family-of-muslim-man-who-died-in-police-custody-demand-justice>

Date Accessed:24/10/2016

### सोशल पोस्ट के विवाद में पोकरण के डॉक्टर पर एफआईआर

राजस्थान के पोकरण में कार्यरत चिकित्सक मोहम्मद याकूब के खिलाफ सेक्शन 151 के तहत आपत्तिजनक संदेश का मामला दर्ज किया गया। इस विवाद में हिंदूवादी संगठनों के साथ यूथ कांग्रेस ने भी धरना दिया और गिरफ्तारी की मांग की। मोहम्मद याकूब पर आरोप था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर दीवाली को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट लगाया था।

<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/muslim-doctor-held-for-obscene-diwali-post-sent-on-whatsapp-group-/3102836>

Date Accessed:26/10/2016

### हेट स्पीच मामले में हिंदू एक्य वेदी की नेता गिरफ्तार

केरल में हिंदू एक्य वेदी की केपी शशिकला को आईपीसी की धारा 153-ए के तहत गिरफ्तार किया गया। के.पी. शशिकला का हाल ही में दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर जारी किया गया था और उन पर आरोप था कि भाषणों से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है।

[http://www.business-standard.com/article/politics/kerala-hindu-outfit-leader-booked-for-hate-speech-116102700628\\_1.html](http://www.business-standard.com/article/politics/kerala-hindu-outfit-leader-booked-for-hate-speech-116102700628_1.html)

Date Accessed:27/10/2016

### इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर आपराधिक मामला दर्ज

महाराष्ट्र पुलिस ने जाकिर नाइक की संस्था के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। जाकिर नाइक पर युवाओं के रेडिकलीकरण और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जाकिर नाइक सलाफी विचारधारा से प्रेरित हैं और यूके, कनाडा में भाषणों पर प्रतिबंध है।

<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/zakir-naiks-islamic-research-foundation-to-be-banned-soon-dhaka-attack-terrorism-peace-tv/>

Date Accessed:27/10/2016

### हेट स्पीच मामले में आप नेताओं पर कार्रवाई पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश में 2104 के हेट स्पीच मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यूपी सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास पर अमेठी में हेट स्पीच का आरोप लगा था।

<http://www.aninews.in/newsdetail-MTA/Mjg1MDIy/sc-issues-notice-to-up-govt-on-2014-kejriwal-kumar-vishwas-hate-speeches.html>

Date Accessed:27/10/2016

**बाबू बजरंगी को एक हफ्ते की जमानत**

नरोदा पाटिया केस में उम्र कैद की सजा पा चुके बाबू बजरंगी को मानवीय आधार पर 1 हफ्ते की अस्थायी जमानत मिल गयी। बाबू बजरंगी ने पत्नी की तबियत खराब होने के आधार पर 1 महीने की रिहाई की मांग की थी। बाबू बजरंगी अहमदाबाद के साबरमती सेन्ट्रल जेल में सजा भुगत रहे हैं।

<http://www.dnaindia.com/india/report-gujarat-hc-gives-temporary-bail-to-babu-bajrangi-2268000>

Date Accessed:27/10/2016

**उज्जैन महाकुंभ पर विवादित पोस्ट की पुलिस शिकायत**

मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में उज्जैन महाकुंभ पर आपत्तिजनक पोस्ट के विवाद में एक व्यक्ति के खिलाफ हिंदू संगठनों ने कार्रवाई करने की मांग की। गाडरवारा पुलिस थाना में विहिप, बजरंग दल ने आरोपी की नामजद शिकायत दर्ज करायी।

<http://www.patrika.com/news/jabalpur/obscene-photos-of-ujjain-kumbh-complaint-to-police-1429562/>

Date Accessed:31/10/2016

**सांप्रदायिकता से जुड़े आंकड़े****उत्तरप्रदेश में सांप्रदायिक घटनाओं में बढ़त**

हिंदुस्तान टाइम्स की विस्तृत रिपोर्ट में कहा गया है यूपी में 2010 से 2016 के बीच 12,000 सांप्रदायिक घटनाएं हुईं। बीफ को लेकर सांप्रदायिक घटनाओं में बढ़त हुई है। 2010 में दर्ज मामले 130 के आस-पास थे, जबकि 2014 में ऐसे मामले बढ़कर 458 हो गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कब्रिस्तान के विवाद, धार्मिक स्थलों के विवाद और धार्मिक आयोजनों को लेकर तनाव बढ़ा है।

<http://www.hindustantimes.com/static/uttar-pradesh-communal-riot/anatomy-of-a-riot/>

<http://www.hindustantimes.com/static/uttar-pradesh-communal-riot/holy-cows-uttar-pradesh/>

<http://www.hindustantimes.com/static/uttar-pradesh-communal-riot/love-jihad-uttar-pradesh/>

Date Accessed: 20/10/2016

Connect with RGICS at: [info@rgics.org](mailto:info@rgics.org); [www.rgics.org](http://www.rgics.org)



सूचना: यह केवल निजी प्रसार के लिए है। सभी लेख, खबरें मूल लेखों और खबरों का सार-संक्षेप है और इनके शीर्षकों में कहीं-कहीं बदलाव किया गया है। मूल लेखों और खबरों के विस्तार के लिए साथ में लिंक भी दिए गए हैं।